भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

फा. क्र. सी/(5)/2021-एफईए-॥ ---- धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :-

दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 03)

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:
 - (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।
 - (2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची ॥ में, मद (8) के तहत, उप-मद (8.ए) के लिए, निम्नलिखित उप-मद और उससे संबंधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

मद	टैरिफ़
"(8.ए) यूएसएसडी-आधारित	
मोबाइल बैंकिंग और भुगतान	शून्य"
सेवाओं के लिए आउटगोइंग	
यूएसएसडी सत्र के लिए टैरिफ	

(डॉ. एम.पी. तंगीराला) प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

नोट 1 - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
 ₁ ला	301-4/99-भाद्विप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
₂ रा	301-4/99-भाद्विप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
₃ रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
₄ था	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 28.7.1999
₅वां	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 17.9.1999
₆ वां	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.9.1999
₇ वां	301-8/2000-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/भादूविप्रा-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-भादूविप्रा (इकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-भाद्विप्रा (इको) दिनांक ४.७.२००२
23 वां	303/8/2002-भाद्विप्रा (इकॉन) दिनांक 6.9.2002

24 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 24.1.2003
25 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 12.3.2003
26 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.3.2003
27 वां	303/6/2003-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 5.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 3.12.2003
30 वां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008

49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
67 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022

नोट २ - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

<u> व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

- 1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भाद्विप्रा अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है। भाद्विप्रा अधिनियम की धारा 11 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी भी देश में प्रसारित किए जाएंगे: जिससे प्राधिकरण को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार मिलता है।
- 2. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण असंरचित पूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा सिहत विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए टैरिफ को समय-समय पर संशोधित दूरसंचार टैरिफ ऑर्डर 1999 की अनुसूची ॥ की मद (8) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा टैरिफ के रूप में विनियमित किया गया है। टीटीओ में वर्तमान संशोधन का उद्देश्य यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए ढांचे में संशोधन करना है। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य इस संशोधन को जारी करने के लिए तर्क और कारण प्रदान करना है।
- 3. दिसंबर, 2011 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के यूएसएसडी गेटवे के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा वितीय सेवा विभाग (डीएफएस) को यूएसएसडी कोड

*99# आवंदित किया गया था। अप्रैल, 2012 में, भादूविप्रा ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को यूएसएसडी के मामले में अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को यूएसएसडी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नवंबर, 2012 में, एनपीसीआई ने यूएसएसडी चैनल के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को सक्षम करने के लिए यूएसएसडी गेटवे (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया। 2013 में, प्राधिकरण ने मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवता) (संशोधन) विनियम, 2013 के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग लेनदेन को पूरा करने के लिए चरणों की अधिकतम संख्या दो से बढ़ाकर पांच कर दी।

4. दूरसंचार टैरिफ (छप्पनवां संशोधन) आदेश, 2013 के माध्यम से प्राधिकरण ने, यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र में रु. 1.50 की सीमा टैरिफ को निर्धारित किया और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसएसडी के उपयोग के लिए बैंकों के एजेंटों को एक्सेस सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के लिए यूएसएसडी के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग की स्विधा प्रदान करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भ्गतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित उच्चतम सीमा टैरिफ को रु. 1.50 से घटाकर रु. 0.50 प्रति सत्र कर दिया और मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 के माध्यम से प्रत्येक यूएसएसडी सत्र में चरणों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ चरणों में की गई। प्राधिकरण ने इस सेवा के उपयोग और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई/बैंकों को सभी भ्गतान प्लेटफार्मी पर लेनदेन का समर्थन करने के लिए सॉफ्टवेयर स्विधाओं में स्धार, उपयोगकर्ता के अनुकूल मेनू का डिजाइन, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसे विभिन्न तंत्रों का भी सुझाव दिया।

- 5. इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वितीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने इसे अपनाने और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यूएसएसडी शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। आरबीआई ने प्राधिकरण से सीडीडीपी द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और इसके लिए आवश्यक नियामक ढांचा प्रदान करने का आग्रह किया।
- 6. वितीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने भी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन किया और आम लोगों द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण / कठिन क्षेत्रों, आबादी के वर्ग में इस सेवा को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए यूएसएसडी टैरिफ माफ करने का अनुरोध किया। जिनके लिए वितीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता योजना की स्थापना की गई है। इस संबंध में डीएफएस के अनुरोध के बाद, प्राधिकरण ने यूएसएसडी शुल्कों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
- 7. तदनुसार, प्राधिकरण ने 24 नवंबर, 2021 को दूरसंचार टैरिफ(66वां संशोधन) आदेश, 2021 पर मसौदा जारी किया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र "शून्य" टैरिफ का प्रस्ताव किया गया था। मसौदे के आदेश पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां क्रमशः 8 दिसंबर, 2021 और 17 दिसंबर, 2021 तक मांगी गई थीं। प्रत्युत्तर में, एक संघ, चार सेवा प्रदाताओं और एक संगठन ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की और एक संगठन ने अपनी प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत की।
- कुछ हितधारकों ने तर्क दिया है कि चूंकि यूएसएसडी लेनदेन उनके नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, वे इस सेवा को प्रदान करने में पूंजीगत व्यय

के साथ-साथ परिचालन व्यय भी लागू करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि यह सेवा मुफ्त की जाती है, तो उन्हें एनपीसीआई के माध्यम से बैंकों द्वारा इस खर्च के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि यदि यूएसएसडी टैरिफ हटा दिए जाते हैं तो इस सेवा से संबंधित विनियामक दायित्वों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- 9. एक हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि यूएसएसडी के लिए टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए ताकि संशोधित मूल्य निर्धारण और यूएसएसडी सेवाओं के उठाव के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध का पता लगाया जा सके।
- 10. कुछ हितधारकों ने डिजिटल वितीय समावेशन में सहायता के लिए टैरिफ हटाने का समर्थन किया है।
- 11. यूएसएसडी शुल्कों को अन्य सेवाओं के अनुरूप लाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए, टीएसपी द्वारा दी जा रही प्रमुख सेवाओं के लिए टैरिफ के वर्तमान स्तर की जांच की गई। सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा के लिए टैरिफ का वर्तमान स्तर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा का औसत टैरिफ

मद	वायरलेस सेवा के लिए मूल्य
आउटगोइंग वॉयस कॉल के लिए औसत	रु. ०.०४ प्रति मिनट
टैरिफ	
(औसत आउटगो प्रति आउटगोइंग मिनट)	
आउटगोइंग एसएमएस संदेश के लिए	रु. ०.०१ प्रति एसएमएस
औसत टैरिफ	

नोट: उपरोक्त आंकड़े टीएसपी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं

- 12. उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रत्येक यूएसएसडी सत्र के लिए रु. 0.50 की वर्तमान उच्चतम सीमा टैरिफ आउटगोइंग वॉयस कॉल के एक मिनट के औसत टैरिफ के साथ-साथ एक आउटगोइंग एसएमएस की तुलना में काफी अधिक है।
- 13. साथ ही, राजस्व के मामले में, यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग सत्रों के माध्यम से उत्पन्न कुल राजस्व, उद्योग के कुल राजस्व का लगभग 0.00007% है।
- 14. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस सेवा को प्रदान करने वाले टीएसपी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की लगातार दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी इंगित करती है कि सेल्फ-केयर सेवा के लिए यूएसएसडी सत्र^[1]कुल यूएसएसडी सत्रों का 99.5% हिस्सा है और 0.5% का शेष न्यूनतम हिस्सा, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों से संबंधित है।
- 15. यह मान लेना तर्कसंगत है कि यूएसएसडी सेल्फ-केयर सेवा सत्र को संभालने में शामिल नेटवर्क लागत यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्र की लागत के समान है। फिर भी ये सेल्फ-केयर यूएसएसडी सत्र अंतिम-उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी टैरिफ के उपलब्ध हैं जबकि यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं पर अधिकतम टैरिफ लगाया जा रहा है।
- 16. इसके अलावा, एक ऑपरेटर वर्तमान में यूएसएसडी गैर- सेल्फ-केयर सेवा को नि:शुल्क प्रदान कर रहा है, जबिक अन्य ऑपरेटर 0.50 रुपये प्रति सत्र के उच्चतम दर पर टैरिफ ले रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण पर, यह देखा

¹ यूएसएसडी आधारित स्व-देखभाल सेवा से तात्पर्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा यूएसएसडी के उपयोग के माध्यम से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेल्फ-केयर/सेल्फ-हेल्प /सेल्फ-सपोर्ट सेवाओं से है। इस सेवा का उपयोग यूएसएसडी ग्राहकों द्वारा यूएसएसडी कोड डायल करके प्रीपेड बैलेंस, वैधता अविध, टैरिफ योजना के विवरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

गया है कि टैरिफ नहीं लेने वाले ऑपरेटर के लिए यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्रों की संख्या, अधिकतम टैरिफ पर शुरू किए गए सत्रों की संख्या का चार गुना है। इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि उपयोगकर्ता उस ऑपरेटर को प्राथमिकता देते हैं जो इस सेवा को निःशुल्क प्रदान करता है। यह प्राधिकरण के विश्लेषण की पुष्टि करता है कि इस सेवा के लिए टैरिफ में कमी आने से इस सेवा को लोकप्रिय बनाने और इसे और अपनाने में मदद मिल सकती है।

17. प्राधिकरण का विचार है कि चूंकि यूएसएसडी लिक्षित उपयोगकर्ता आम तौर पर कम आय वाली ग्रामीण आबादी हैं जो अभी भी फीचर फोन का उपयोग कर रहे हैं, यूएसएसडी सेवा के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाने से यूएसएसडी लेनदेन की संख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो डिजिटल वितीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह उद्योग के राजस्व को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, विशेष रूप से तब जब सेवा प्रदाताओं द्वारा सेल्फ-केयर सेवाओं के लिए समान लेनदेन निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हों। इसलिए, प्राधिकरण ने शेष पहलुओं को अपरिवर्तित रखते हुए मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए यूएसएसडी के लिए निर्धारित टैरिफ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण सेवा की प्रगति पर नजर रखना जारी रखेगा और दो साल की अविध के बाद प्रभार की समीक्षा कर सकता है।